



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

27 जून 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक – बुलेटिन साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक – सारांश

1. भारतीय रिज़र्व बैंक-देयताएं और आस्तियां *					
(₹ करोड़)					
मद	2024	2025		घट-बढ़	
	21 जून	13 जून	20 जून	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
4. ऋण और अग्रिम					
4.1 केंद्र सरकार	-	0	0	0	0
4.2 राज्य सरकारें	4039	15962	17089	1128	13050
* आंकड़े अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।					

2. विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि *								
मद	20 जून 2025 तक		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			सप्ताह		मार्च 2025 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलियन अ.\$	₹ करोड़	मिलियन अ.\$	₹ करोड़	मिलियन अ.\$	₹ करोड़	मिलियन अ.\$
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल आरक्षित निधि	6043697	697935	25723	-1015	331556	29609	582720	44225
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां#	5100971	589069	26005	-357	250137	21511	304785	14935
1.2 स्वर्ण	742482	85743	-698	-573	74320	7567	266687	28787
1.3 विशेष आहरण अधिकार	161685	18672	192	-85	6396	503	10904	622
1.4 आईएमएफ में आरक्षित निधि की स्थिति	38559	4452	224	-1	703	29	344	-120
* घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।								
# इसमें (ए) भारतीय रिज़र्व बैंक की एसडीआर धारिता, क्योंकि वे एसडीआर धारिता के तहत शामिल हैं; (बी) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉण्ड में निवेश; (सी) सार्क और एसीयू मुद्रा स्वैप व्यवस्था के तहत उधार दी गई राशि और (डी) नेक्सस ग्लोबल पेमेंट्स के वित्तपोषण में रिज़र्व बैंक का योगदान शामिल नहीं है।								

4. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक-भारत में कारोबार						
(₹ करोड़)						
मद	13 जून 2025 को बकाया	पखवाड़ा	निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़			
			वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष -दर-वर्ष	
			2024-25	2025-26	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
2 अन्यो के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	23069773	-102770	427692	489171	2334962	2166854
	(23015993)				(2241958)	(2206079)
2.1क. संवृद्धि (प्रतिशत)		-0.4	2.1	2.2	12.6	10.4
					(12.1)	(10.6)
2.1.1 मांग	2859239	-129682	-53159	161190	230478	468545
2.1.2 मीयादी	20210534	26912	480851	327981	2104484	1698309
2.2 उधार	837463	-58264	2732	-77786	275395	56788
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	1106232	71659	28179	44600	162141	140625
7 बैंक ऋण	18313978	26601	274254	70005	2682919	1607560
	(17915522)				(2176404)	(1715620)
7.1क. वृद्धि (प्रतिशत)		0.1	1.7	0.4	19.1	9.6
					(15.5)	(10.6)
7 क.1 खाद्य ऋण	67606	-2975	13842	31074	8190	30683
7 क.2 खाद्येतर ऋण	18246372	29576	260411	38931	2674728	1576878

1. 14 जुलाई 2023 से आंकड़ों में एक गैर-बैंक का बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में विलय के प्रभाव शामिल नहीं हैं।

6. मुद्रा स्टॉक: घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2024-25		2025-26		2024		2025	
	31 मार्च	13 जून	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	27227143	27842415	-92113	-0.3	519420	2.1	615273	2.3	2492625	10.9	2491378	9.8
	(27286589)	(27896195)	(-93373)	(-0.3)			(609606)	(2.2)			(2452153)	(9.6)
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	3630751	3744622	8094	0.2	79329	2.3	113870	3.1	219929	6.7	255016	7.3
1.2 बैंकों के पास मांग जमा राशि	2840023	3001882	-129648	-4.1	-51478	-2.0	161859	5.7	235458	10.2	466471	18.4
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमा राशि	20643062	20987068	30729	0.1	496161	2.6	344006	1.7	2016045	11.7	1750990	9.1
	(20702508)	(21040848)	(29469)	(0.1)			(338339)	(1.6)			(1711765)	(8.9)
1.4 रिज़र्व बैंक के पास अन्य जमा राशि	113307	108844	-1289	-1.2	-4593	-4.9	-4463	-3.9	21193	30.8	18900	21.0
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	8463065	8586169	139606	1.7	-86525	-1.2	123104	1.5	257862	3.6	1160678	15.6
	(8510825)	(8632757)	(139606)	(1.6)			(121931)	(1.4)			(1122347)	(14.9)
2.1.1 रिज़र्व बैंक	1508105	1602562	123247		-219635		94457		-249745		628984	
2.1.2 अन्य बैंक	6954959	6983607	16359	0.2	133110	2.1	28648	0.4	507607	8.5	531694	8.2
	(7002720)	(7030194)	(16359)	(0.2)			(27474)	(0.4)			(493363)	(7.5)
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	18646762	18715319	25273	0.1	292300	1.8	68558	0.4	2201597	14.9	1750874	10.3
	(19068129)	(19113775)	(24756)	(0.1)			(45646)	(0.2)			(1642815)	(9.4)
2.2.1 रिज़र्व बैंक	38246	10263	-4130		-3037		-27982		6504		-1106	
2.2.2 अन्य बैंक	18608516	18705056	29403	0.2	295337	1.8	96540	0.5	2195093	14.9	1751980	10.3
	(19029883)	(19103511)	(28886)	(0.2)			(73628)	(0.4)			(1643921)	(9.4)

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

8. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(₹ करोड़)

तारीख	चलनिधि समायोजन सुविधा						स्थायी चलनिधि सुविधायें	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन(+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)
	रेपो	प्रतिवर्ती रेपो	परिवर्ती दर रेपो	परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो	एमएसएफ़	एसडीएफ़		विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4	5	6		8	9	
16 जून 2025	-	-	-	-	1289	277831	-	-	10	-276532
17 जून 2025	-	-	-	-	1297	299971	-	-	-	-298674
18 जून 2025	-	-	-	-	1389	296073	-1139	-	-	-295823
19 जून 2025	-	-	-	-	1323	322568	-175	-	-	-321420
20 जून 2025	-	-	-	-	2659	303886	-125	-	-	-301352
21 जून 2025	-	-	-	-	946	235683	-	-	-	-234737
22 जून 2025	-	-	-	-	285	196522	-	-	-	-196237

एसडीएफ़: स्थायी जमा सुविधा; एमएसएफ़: सीमांत स्थायी सुविधा।

अजीत प्रसाद

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/610

उप महाप्रबंधक (संचार)